

12. Write short notes on the following : **12**

- (a) GST exemptions for Small Scale Business
- (b) GST tax planning for Service Industries
- (c) SGST and CGST.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) लघु पैमाने के व्यवसाय के लिए GST से छूटें
- (ब) सेवा उद्योगों के लिए GST कर नियोजन
- (स) SGST तथा CGST ।

Or (अथवा)

“Processing and manufacturing of goods determine the rate of GST.” Elucidate.

“माल का प्रसंस्करण तथा विनिर्माण GST की दर का निर्धारण करते हैं । विस्तृत कीजिए ।

13. Discuss and detailed out the brief history of GST in India. Is Goods and Services Tax Act, 2017 is an addition to existing tax laws in the field ? **11**

भारत में GST के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन तथा विवरण दीजिए एवं विस्तारित कीजिए । क्या माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 क्षेत्र में मौजूदा कर कानूनों से अलग है ?

Roll No.

Exam Code : J-19

Subject Code—0644

P.G.D.T. EXAMINATION

(Batch 2017 Only)

GOODS AND SERVICES TAX

PGDT-103

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

Section A

खण्ड ‘अ’

Note : Explain and exemplify only *Seven* of the following questions in not more than **90-100** words each. **5×7=35**

निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं सात प्रश्नों की **90** से **100** शब्दों में स्पष्ट तथा व्याख्या कीजिए :

1. The assessment process under GST.

GST के अन्तर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया

2. The brief history of GST in India
भारत में GST का संक्षिप्त इतिहास
3. The provisions of Appeal and Revision under GST.
GST के अन्तर्गत अपील तथा रिवीजन के प्रावधान।
4. Briefing the nature of GST tax planning.
GST कर नियोजन की प्रकृति संक्षेप में समझाइए।
5. Classification of goods and services under GST.
GST के अन्तर्गत माल और सेवाओं का वर्गीकरण।
6. GST tax and small scale business
GST टैक्स तथा लघु पैमाने का व्यवसाय
7. Provisions regarding IGST and UTGST.
IGST तथा UTGST के संबंध में प्रावधान
8. Penalties and recovery provisions in GST.
GST में दण्ड तथा रिकवरी के प्रावधान
9. Provisions regarding HSN and GSTN under GST.
GST के तहत HSN तथा GSTN के संबंध में प्रावधान

10. Rules regarding e-Way Bill under GST.
GST के तहत e-Way बिल के संबंध में नियम।

Section B

खण्ड 'ब'

Note : Attempt all questions.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

11. “Valuation under GST Act, 2017 do not differ in specific cases.” Explain. **12**
“GST अधिनियम, 2017 के तहत मूल्यांकन विशिष्ट मामलों से भिन्न नहीं होता।” व्याख्या कीजिए।

Or (अथवा)

Explain and exemplify in detail the provisions relating to the Input Tax Credit and e-Way Bill of goods under GST law in India.

भारत में GST के तहत माल के इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा e-Way बिल के संबंध में प्रावधानों का विस्तृत वर्णन तथा स्पष्टीकरण कीजिए।

Or (अथवा)

Discuss and differentiate the domestic and export procedures in GST regime. Give examples.

GST क्षेत्र में घरेलू और निर्यात प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी दीजिए।

Or (अथवा)

Discuss and differentiate the domestic and export procedures in GST regime. Give examples.

GST क्षेत्र में घरेलू और निर्यात प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी दीजिए।